

प्रेस नोट- दिनांक 21.03.2021

इटावा पुलिस द्वारा महिलाओं व लडकियों को अभद्र शब्द बोलने व उन पर अश्लील फब्तिया कसने वाले युवक को 01 अदद अधिया देशी 315 बोर नाजायज मय 01 अदद कारतूस 312 बोर जिन्दा नाजायज के साथ किया गिरफ्तार ।

महिलाओं सम्बन्धी अपराध तथा आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा व क्षेत्राधिकारी सैफई के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी बसरेहर के नेतृत्व में महिलाओं व लडकियों को अभद्र शब्द बोलने व उन पर अश्लील फब्तिया कसने वाले युवक को 01 अदद अधिया देशी 315 बोर नाजायज मय 01 अदद कारतूस 312 बोर जिन्दा नाजायज के साथ किया गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 21.03.2021 की सुबह को थाना बसरेहर टीम द्वारा महिलाओं सम्बन्धी अपराध तथा आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु थाना क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर गस्त कर रही थी । इसी दौरान पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि थाना क्षेत्रांतर्गत बसरेहर के किल्ली सुल्तानपुर से संतोषपुर घाट जाने वाले मार्ग पर सिरसा जाने वाले नहर बम्बा की पुलिया पर एक युवक आने - जाने वाली महिलाओं व लडकियों पर अश्लील फब्तिया व अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है मुखबिर की सूचना के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना बसरेहर पुलिस टीम मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा कि एक युवक आने- जाने वाली महिलाओं व लडकियों को अभद्र शब्द बोल रहा है और अश्लील फब्तियाँ कस रहा है । इसी के क्रम में पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर युवक को घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया एवं उसके कब्जे से 01 अवैध अधियां 315 बोर व 01 अवैध कारतूस 315 बोर बरामद हुए जिनके जरूरी प्रपत्र दिखाने में अभियुक्त असमर्थ रहा ।

जिस के संबंध में थाना बसरेहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. शाबिर पुत्र नबी निवासी पाढमपुर थाना जसराना जिला फिरोजाबाद

बरामदगीः-

1. 01 अधिया देशी 315 बोर
2. 01 जिंदा कारतूस 312 बोर

पुलिस टीमः-

1. श्री मुकेश कुमार सोलंकी थानाध्यक्ष बसरेहर
2. उ0नि0 श्री अमृतलाल
3. का0 1318 पंकज कुमार

सोशल मीडिया सेल
जनपद इटावा ।